



STATE OF WEST BENGAL
Before the 1st Class Judicial Magistrate at Durgapur Court.
AFFIDAVIT

I, Sri Jangla Ruidas, S/O. Late Dharam Ruidas, by faith Hindu, resident of Vill. Kaligang, P.O. Arkah, Durgapur-12, P.S. NTSPS, do hereby solemnly affirm and declare as follows :-

1. That I am an Indian citizen .
2. That my original and correct name is "Jangla Ruidas", which is written and recorded in my Aadhaar Card, Voter Card, and Pan Card.
3. That in my "Deed" my name has been wrongly written and recorded as Jangal Ruidas.
4. That "Jangla Ruidas" and "Jangal Ruidas" is the same and one identical person i.e myself .

That all the statements made above are true to the best of my knowledge and belief. I sign and swear this affidavit on this the 18th day of July 2016 at Durgapur Court.

Identified by me

Mukul Banerjee
Advocate

Jangla Ruidas

Durgapur
Declarant,

Mukul Banerjee

29/7/16

29/7/16

3867

T 3107

500Rs



परिचय-इस दस्तावेज़ का उद्देश्य निम्नलिखित है।
प्राप्ति-कार्य-क्रम-कानूनी विवरण-विवरण-विवरण-

प्राप्ति-कार्य-क्रम-कानूनी विवरण-विवरण-विवरण-

23
A 55/-
4.50

प्राप्ति-कार्य-क्रम-कानूनी विवरण-विवरण-विवरण-

14.11.90

(2) लोकानां अधिकारी - श्री शंखेन्द्र दास देव - बिहार
श्री विजय देव - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -

लोकानां अधिकारी - श्री विजय देव - बिहार -
श्री विजय देव - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार -

लोकानां अधिकारी - श्री विजय देव - बिहार -
श्री विजय देव - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -
बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार - बिहार -



50 Rs.



अस्ति तत् त्वं परम्
 अस्ति तत् त्वं परम्
 अस्ति तत् त्वं परम्
 अस्ति तत् त्वं परम्

१९७६ ईश्वरानन्द शर्मा द्वारा लिखित एक ग्रन्थ का अनुवाद है। इसमें शास्त्रीय शब्दों का उपयोग अधिक है। ग्रन्थ का अधिकांश भाग अनुवाद करने की कठिनता दर्शाता है। इसलिए अनुवाद की जानकारी नहीं दी जा सकती।

अनुवाद करने की कठिनता का कारण यह है कि शास्त्रीय शब्दों का अनुवाद अक्षर अक्षर के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका अनुवाद अक्षर अक्षर के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका अनुवाद अक्षर अक्षर के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका अनुवाद अक्षर अक्षर के अनुसार किया जाना चाहिए।

2

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

ମେଘ ରାଜନୀ ପାତ୍ର

~~and 2 drawings~~ - D.P.R-32
853

— 853 —

۲۸۷

It is very much

387 387

၁၃၂၁

સાહેબ કિન્દમ

PLAN SHOWING THE LAND OVER PART OF R.S. PLOT NO. 1360 A
OF MAJYA-KAUGANJ, J.I.NO. 83, P.S. FARIDPUR, DIST - BURDWAN
MINERS LAND AREA - 04K-01CH-02S0FT AND 01K-13CH TOTAL - 05K-14CH-02 S.
OWNER'S NAME - JANGALI RAMU



INDEX MAP

SCALE - 35²

SUB PLOT 02

K3. INDEX M

卷之三



✓ 2002

SIG OF
THE VENDORS

१५८३

600 District Sales Growth.

Page 2629

-1-

Distretto Sint. Giacomo - certificato di morte N° 3107
Battuta 26/12/90 da Dott. G. Scandella
4-V-1990 da ditta Rec. 4456

Specimen 241298 a. Oando 2000
4-2-1989 G. L. Lee. 4456

→ v 1990^o of a ~~new~~ tree
in the

Cry: - ~~Author~~

2012.90



4456

J-31076-6990

Stampless book - in
three sheets only.
(Rs 50/- + Rs 15/-)

Amounts in rupees -
5/-
2/-
A 55.00
4.50

Sell A. Tripathi
Ranipet
Panjab

14.11.90

Amounts - in rupees -
2000/-
1415/- Nov. 1990
for stampless book
Prabut kri Seepat

① 1425 AM 11/11/90

Sell A. Tripathi

Ranipet

14.11.90

Received by -

At Batalpul

Received by - 24.12.90

Shakes m. 12.90

Received by -

Prabut kri Seepat
Bengaluru
Bengaluru
Bengaluru
Bengaluru
Bengaluru

T-3 110 11.09

① 1425 AM 11/11/90

I have -

Received by -
Bengaluru
Bengaluru
Kalyan
Faroofza

② 1425 AM 11/11/90
Received by -
S. A. Tripathi

Ranipet

14.11.90